



*Health from nature's wild wealth*

दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक औषधि

# सेहत भरे आयुर्वेदिक कैप्सूल



मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित  
खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले, भोपाल - 462003  
फोन : 0755-2674202, फैक्स : 0755-2552628



# विन्ध्य हर्बल्स पेटेंट कैप्सूल

AYURVEDIC  
PROPRIETARY  
MEDICINE

कैप्सूल	घटक (प्रति 500 मिली ग्राम)	इन रोगों में लाभकारी	उपयोग
विन्ध्य एन्टासिड 500 कैप्सूल	अविपत्तीकर चूर्ण घनसत्व, आंवला घनसत्व, मुलेठी घनसत्व, पीपरामूल घनसत्व, सिद्धामृत भस्म, प्रवाल भस्म, शुक्ति भस्म, कामदुधा रस, यशदभस्म, निशोथ घनसत्व	यह अम्ल पित्त का नाश करता है, एसिडिटी, खट्टी डकार, वात रोग में भी लाभदायक है।	1-2 कैप्सूल भोजन करने से आधे घण्टे पूर्व दिन में दो बार जल से।
विन्ध्य एन्टीवर्म कैप्सूल	पलाश बीज घनसत्व, वायबिडंग घनसत्व, कुटज छाल घनसत्व	कृमिनाशक, उदररोग, ग्रहणी में अत्यन्त उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत जल से
विन्ध्य एन्टीडायरल-500 कैप्सूल	दारु हल्दी घनसत्व, नागरमोथा घनसत्व, कुड़ा छाल घनसत्व, अतीस घनसत्व, जायफल घनसत्व, धनिया घनसत्व, अदरक घनसत्व, बेल घनसत्व, मरोड़फली घनसत्व, सौंफ घनसत्व, अनार घनसत्व, सफेद इन्द्रजौ घनसत्व, मोघरस, धायफूल घनसत्व, पठानी लोध घनसत्व	अतिसार, ग्रहणी, अभीबीएसिस एवं उदरशूल में लाभदायक।	1-2 कैप्सूल दिन में दो से तीन बार जल से।
विन्ध्य आंवला कैप्सूल	आंवला घनसत्व	विटामिन सी, रसायन, नेत्ररोग, अम्लपित्त में उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत जल से।
विन्ध्य अर्जुन कैप्सूल	अर्जुन घनसत्व एवं गिलोय घनसत्व	हृदय रोग, उच्च रक्तचाप में लाभकारी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध से दिन में दो बार।
विन्ध्य अश्वगंधा कैप्सूल	अश्वगंधा घनसत्व	बल्य, कमजोरी, शक्तिवर्धक, तनाव में अत्यन्त लाभकारी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध से दिन में दो बार।
विन्ध्य भुई आंवला कैप्सूल	भुई आंवला घनसत्व	ज्वर, यकृत रोग, पीलिया में अत्यन्त लाभकारी।	1-2 कैप्सूल भोजन पूर्व जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य ब्राम्ही कैप्सूल	ब्राम्ही घनसत्व, मुलेठी घनसत्व, शंखपुष्पी घनसत्व, गिलोय सत्व	स्मरणशक्ति बढ़ाना, मानसिक दुर्बलता, नाड़ी तंत्र की कमजोरी में उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध से दिन में दो बार।
विन्ध्य च्यवनफोर्ट कैप्सूल	पीपल घनसत्व, काकड़सिंगी घनसत्व, हरड़ घनसत्व, भुई आंवला घनसत्व, अडुसा घनसत्व जीवन्ति घनसत्व कमलागट्टा घनसत्व, छोटी इलायची, चन्दन घनसत्व, कबूत घनसत्व, नागरमोथा घनसत्व, पुष्करमूल घनसत्व, कौआतोड़ी घनसत्व, माषपर्णी घनसत्व, बिदारीकन्द घनसत्व, साठी घनसत्व, अगर घनसत्व, मृगपर्णी घनसत्व, गिलोय घनसत्व, दालचीनी, नागकेशर, वंशलोचन, दशमूल घनसत्व, अष्टवर्ग घनसत्व, आंवला घनसत्व	शक्तिवर्धक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, श्वास-कांस (मधुमेह रोगी भी ले सकते हैं) में उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध से दिन में दो बार।
विन्ध्य कफ-6 कैप्सूल	अडुसा घनसत्व, हल्दी चूर्ण, तुलसी घनसत्व मुलेठी घनसत्व, कंठकारी घनसत्व, भुई आंवला घनसत्व	कफ, सर्दी, खांसी, श्वास में अत्यन्त उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य डॉयबो प्लस-500 कैप्सूल	गिलोय घनसत्व, चिरायता घनसत्व, मेथी घनसत्व, गुड़मार घनसत्व, जामुन घनसत्व, बीजासार घनसत्व तुलसी पत्ते घनसत्व, अश्वगंधा घनसत्व, शतावर घनसत्व, त्रिफला घनसत्व, त्रिकटु घनसत्व, नीम घनसत्व, बेलपत्र घनसत्व, शिलाजीत, स्वर्णमाक्षिक भस्म, करेला घनसत्व, गौमूर भावना	मधुमेह में लाभदायक, शर्करा स्तर धीरे-धीरे कम करने में उपयोगी एवं अन्य रोग भी दूर होते हैं व रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभदायक।	1-2 कैप्सूल दिन में दो बार भोजन पूर्व एवं बेहतर लाभ के लिये भोजन उपरान्त हिपेटो कैप्सूल लें।

कैप्सूल	घटक (प्रति 500 मिली ग्राम)	इन रोगों में लाभकारी	उपयोग
विन्ध्य दशमूल कैप्सूल	दशमूल घनसत्व	दुर्बलता, स्त्रीरोग एवं कमजोरी, वातरोग में लाभकारी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध या जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य गिलोय कैप्सूल	गिलोय घनसत्व	रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ज्वर रोग में उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत जल या दूध से दिन में दो बार।
विन्ध्य गोल्ड पावर-500 कैप्सूल	अश्वगंधा घनसत्व, कैवांच बीज घनसत्व विधारा घनसत्व, सफेदमूसली घनसत्व, गिलोय घनसत्व, गोखरू घनसत्व, जायफल घनसत्व, कबाबचीनी घनसत्व, चोपचीनी घनसत्व, त्रिकटु घनसत्व, अकरकरा घनसत्व, शतावर घनसत्व, त्रिफला घनसत्व, गोरखमुण्डी घनसत्व अन्नक भस्म, माणिक भस्म, शिलाजीत, सालमिश्री घनसत्व, स्वर्ण भस्म	पौरुष शक्ति बढ़ती है एवं कमजोरी दूर होती है। इससे बल बढ़ता है व ताकत आती है।	1-2 कैप्सूल दिन में दो बार दूध से।
विन्ध्य गायनो-8 कैप्सूल	अशोक घनसत्व, अश्वगंधा घनसत्व, आंवला घनसत्व, माजूफल घनसत्व, पठानीलोध घनसत्व, गिलोय सत्व, पुनर्नवा घनसत्व, प्रवालपिष्टी	स्त्री रोग, कमर दर्द, प्रदर में लाभप्रद।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध से दिन में दो बार।
विन्ध्य हर्बोकार्ड 4 कैप्सूल	अर्जुन, त्रिफला, अश्वगंधा, गिलोय सभी के घनसत्व	हृदय रोग, रक्त विकार, उच्च रक्तचाप में लगातार सेवन करने पर लाभदायक है।	1-2 कैप्सूल दो बार भोजन उपरांत जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य हिपेटो-500 कैप्सूल	पुनर्नवा, अर्जुन, भृंगराज, गिलोय, वायबिडंग, पिप्पली, सरपोखा, पित्त पापड़ा, कालमेघ, भुई आंवला, मकोयपंचांग, कुटकी, घृतकुमारी आदि के घनसत्व।	यकृत विकार, पाण्डु रोग, कामला में लाभकारी, इससे लगातार सेवन करने से यकृत मजबूत करने में लाभप्रद।	1-2 कैप्सूल भोजन पूर्व दिन में दो या तीन बार।
विन्ध्य जटामांसी कैप्सूल	जटामांसी घनसत्व	नाड़ी तंत्र, सिरशूल, मानसिक थकान, अवसाद, अनिद्रा उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध या जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य कालमेघ कैप्सूल	कालमेघ घनसत्व	ज्वर, विषम ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया में अत्यन्त उपयोगी।	गिलोय कैप्सूल के साथ 1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध से।
विन्ध्य एल-5 कैप्सूल	भू-आंवला, कुटकी, चिरायता, गिलोय सत्व, पुनर्नवा घनसत्व	पीलिया, यकृत रोग, पाण्डुरोग में अत्यन्त उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन से 30 मिनट पूर्व जल से।
विन्ध्य लेक्स कैप्सूल	अमलतास घनसत्व	कब्ज, मृदुविरेचक, उदर रोग में उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत जल या दूध से दिन में दो बार।
विन्ध्य ल्युकोरिल-500 कैप्सूल	पुष्यानुगचूर्ण, शतावर, नागकेशर, अश्वगंधा, माजूफल, त्रिफला, पठानी लोध, अशोक, दशमूल घनसत्व	श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अनियमित मासिक स्त्राव, कटिशूल में लाभदायक।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरान्त जल या चावल के धोवन से रोगानुसार दिन में दो बार।
विन्ध्य लौह कैप्सूल	स्वर्णमाक्षिक भस्म, मण्डूर भस्म त्रिफला, गिलोय के घनसत्व	रक्त की कमी, अर्श, शारीरिक दुर्बलता में लाभकारी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध से।
विन्ध्य महासुदर्शन कैप्सूल	महासुदर्शन घनसत्व	ज्वर, विषम ज्वर, मलेरिया में अत्यन्त लाभकारी।	1-2 कैप्सूल दूध से भोजन उपरांत दिन में दो बार।

कैप्सूल	घटक (प्रति 500 मिली ग्राम)	इन रोगों में लाभकारी	उपयोग
विन्ध्य मेधा-500 कैप्सूल	मालकांगनी, ब्राम्ही, शंखपुष्पी, पीपरामूल बच, सोंठ, शतावर, अश्वगंधा, गिलोय, त्रिकटु, अर्जुन, जटामांसी, भृंगराज घनसत्व, मुक्तापिष्टी	स्मरण शक्ति, बुद्धि का विकास आदि में लाभदायक है उन्माद, अपस्मार।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरान्त सुबह-शाम दूध से।
विन्ध्य निम्बादि कैप्सूल	निम्बादि चूर्ण घनसत्व	आमवात, मुहासे, त्वचा रोग, कुष्ठ, अर्श, व्रण, रूसी में उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य स्लिम-500 कैप्सूल	बहेड़ा, हरड़, आंवला, कालीमिर्च, पिप्पली, अदरक, चित्रकमूल, काला जीरा, कुटकी, नीम, नागरमोथा, अपामार्ग, चव्य, मेथी, हल्दी, पुनर्नवा बीजासार, निशोथ, स्वर्णमाक्षिक भस्म- मेदोहर गुग्गुलु- शिलाजीत- वायबिडंग, घृतकुमारी घनसत्व	मोटापे, कमजोरी, शरीर में अतिरिक्त जमा वसा का शमन करने में लाभदायक, मोटापे के कारण उत्पन्न थकान को दूर करने में लाभप्रद।	1-2 कैप्सूल दिन में दो बार एवं बेहतर लाभ के लिये स्लिम क्वाथ के साथ सेवन करें।
विन्ध्य स्ट्रेस-5 कैप्सूल	ब्राम्ही, जटामांसी, मालकांगनी, सर्पगंधा, गिलोय घनसत्व	मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा में लाभदायक।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत दूध या जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य त्रिफला कैप्सूल	त्रिफला घनसत्व	उदर रोग, कब्ज, प्रमेह में उपयोगी तथा मेदोहर में लाभकारी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत जल से दिन में दो बार।
विन्ध्य वात कैप्सूल	महारासनादिक्वाथ, निर्गुण्डी, अश्वगंधा, तगर के, हल्दी, गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टी- अजमोद घनसत्व	वात रोग, आमवात, शोथ, संधिवात, ग्रधसी कटिशूल आदि में उपयोगी।	1-2 कैप्सूल भोजन उपरांत वात क्वाथ चूर्ण जल से दिन में दो बार।



*Health from nature's wild wealth*

दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक औषधि



**लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.पार्क)**

वन परिसर, बसखेड़ा पठानी, भोपाल - 462021

फोन : 0755-2417670, फैक्स : 0755-2417670

ईमेल : [mfp Parc@gmail.com](mailto:mfp Parc@gmail.com), [mfp\\_Parc@rediffmail.com](mailto:mfp_Parc@rediffmail.com)